

पंजीकृत शिक्षा बचत योजना योजना की तुलना



पंजीकृत शिक्षा बचत योजनाएँ (RESPs) आपको अपने बच्चों की माध्यमिक के पश्चात की शिक्षा के लिए कर-मुक्त बचत करने में सहायता करती हैं। इसमें प्रति लाभार्थी (विद्यार्थी) \$50,000 की जीवनकालिक योगदान सीमा है। 17 वर्ष एवं उससे कम आयु वाले बच्चों के लिए, संघीय सरकार – एक अनुदान या बॉण्ड के रूप में भी RESP में धन का योगदान करती है (वैसे, आपके बच्चे की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच में होने पर विशेष नियम लागू होते हैं)।

RESPs तीन प्रकार के होते हैं: पृथक योजनाएँ, पारिवारिक योजनाएँ, तथा समूह योजनाएँ। पृथक और पारिवारिक योजनाओं की तुलना में समूह RESPs अलग तरीके से काम करते हैं, और प्रत्येक योजना के अपने नियम होते हैं। समूह RESPs में प्रायः उच्च फीस तथा अधिक प्रतिबंधात्मक नियम होते हैं।

आप अधिकांश वित्तीय संस्थानों (जैसे कि बैंक, ट्रस्ट कम्पनी, या म्युच्युअल फंड डीलर) में एक पृथक या पारिवारिक RESP खोल सकते हैं। आप किसी योजना में कितने धन का योगदान और कितने समय अंतराल पर करना चाहते हैं - यह निर्णय आपके हाथ में होता है।

समूह RESPs केवल स्कॉलरशिप योजना डीलर प्रदान करते हैं। एक समूह योजना में, आपके योगदान को दूसरे योजना सदस्यों के धन के साथ मिलाया (पूल किया) जाता है और निवेश किया जाता है। मूल रूप से आप एक सामूहिक योजना (पूल्ड प्लान) की इकाईयां खरीदते हैं। जब आप एक RESP योजना में शामिल होते हैं, तो आप एक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार योजना में पैसा लगाने के लिए सहमत होते हैं। समूह योजना खोलने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपको योजना के बारे में जो भी प्रलेख दिए गए हैं, आपने उन सभी प्रलेखों को पढ़ लिया है। यदि आपको निवेश की किसी विशेषता के बारे में समझ में नहीं आया, तो निवेश करने से पहले प्रश्न पूछें।

RESPs तथा निवेश के बारे में और अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त करें
www.GetSmarterAboutMoney.ca

	पृथक / पारिवारिक	समूह
एक वित्तीय संस्थान में एक योजना खोलें	✓	
एक सामूहिक योजना (पूल्ड प्लान) के शेयर/इकाईयां खरीदने के द्वारा योजना में शामिल हों।		✓
सरकारी अनुदानों के लिए पात्र	✓	✓
निवेश पर होने वाली अर्निंग कर-मुक्त है	✓	✓
अपनी स्वेच्छा के समय पर अपनी मनचाही धनराशि का योगदान करें	✓	
आपके लिए निवेश निर्णय किए जाते हैं		✓
अनुप्रयोज्य पोस्ट-सेकेंडरी प्रोग्राम के बारे में अतिरिक्त प्रतिबंध/नियम, जब फंड को कब निकाल सकते हैं, आदि		✓



यदि आपके पास समूह योजना है :

यदि आपके पास एक समूह योजना है, और आगे आप अपना विचार बदल लेते हैं, तो आपके पास 60 दिनों के अन्दर अपना पूरा पैसा निकाल लेने का अधिकार है। 60 दिनों के बाद, आपको आपका योगदान वापस कर दिया जाएगा, और उसमें से फीस काट ली जाएगी। स्कॉलरशिप योजना डीलरों को एक विवरणिका प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपकी आवश्यकता वाली सूचना के साथ एक योजना सारांश शामिल होता है। इस प्रलेख को पढ़ना और समझना सुनिश्चित करें।

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8
Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

GetSmarterAboutMoney

@smarter_money

GetSmarterAboutMoney.ca



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION

